

## जलियाँवाला बाग नरसंहार मुआवज़े में नस्लीय पूरवाग्रह

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

13 अप्रैल, 1919 को हुआ [जलियाँवाला बाग हत्याकांड](#), भारत के औपनिवेशिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। नया शोध ब्रिटिश सरकार द्वारा त्रासदी से प्रभावित लोगों को मुआवज़ा देने में अपनाई गई घोर नस्लवादी कानूनी संरचना पर प्रकाश डालता है।

### शोध की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **मुआवज़े में नस्लीय पूरवाग्रह:**
  - ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारतीयों को यूरोपीय लोगों के समान मुआवज़ा नहीं दिया जाता था।
    - यूरोपीय लोगों को भारतीयों की तुलना में **600 गुना अधिक मूल्य का भुगतान प्राप्त** हुआ।
  - यूरोपीय लोगों को कुल मिलाकर 523,000 रुपए से अधिक का मुआवज़ा प्राप्त हुआ, साथ ही वयक्तगत भुगतान के रूप में 30,000 रुपए से लेकर 300,000 रुपए तक प्राप्त हुए। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें यूरोपीय दावों को कहीं अधिक प्राथमिकता दी।
  - मुआवज़े का भेदभावपूर्ण वितरण **नस्लीय पूरवाग्रह और भारतीयों के जीवन मूल्य की चतिनीय स्थिति को दर्शाता** है।
- **कानूनी कार्यवाही:**
  - **पंजाब अशांति समिति**, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हिसा को उचित ठहराते हुए नस्लीय आधार पर वभिजित हो गई।
    - समिति के यूरोपीय सदस्यों ने पंजाब में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रयोग की गई हसिक रणनीति को उचित ठहराया, जबकि भारतीय सदस्य इससे सहमत नहीं थे।
  - भारतीय वधायकों ने समान मुआवज़े की मांग की और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
- **उपनिवेशवाद की अनुचिन्ता:**
  - नए शोध के अनुसार, ब्रिटिश सरकार को औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिये, और साथ ही शाही वरिष्ठों को उपनिवेशमुक्त करने तथा इतिहास की गलतियों को स्वीकार करने पर ज़ोर भी दिया जाना चाहिये।

### जलियाँवाला बाग हत्याकांड क्या है?

- **नरसंहार की शुरुआत:**
  - **प्रथम विश्व युद्ध** के बाद [भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस](#) को स्वशासन की उम्मीद थी लेकिन उसे शाही नौकरशाही के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।
  - **1919 में पार्लि रॉलेट एक्ट** ने सरकार को [देशद्रोही](#) गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को बर्ना मुकदमे के गरिफ्तार करने का अधिकार दिया, जिससे देश भर में अशांति को बढ़ावा मिला।
  - 9 अप्रैल, 1919 को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन कचिलू और डॉ. सत्यपाल की गरिफ्तारी के बाद पंजाब में व्यापक वरिध प्रदर्शन शुरू हो गया।
- **नरसंहार:** जलियाँवाला बाग नरसंहार दमनकारी रॉलेट एक्ट और पंजाब में व्यापक वरिध प्रदर्शनों के कारण बढ़े तनाव के कारण हुआ था।
  - वर्ष **1857 के वदिरोह** की तरह वदिरोह के डर से, ब्रिटिश प्रशासन ने प्रतिरोध का दमन किया।
  - 13 अप्रैल, 1919 को ब्रिगिडियर-जनरल डायर की कार्रवाइयों (सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कई नरिदोष लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य लोग घायल हो गए) ने स्थिति को और चतिनीय कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप रॉलेट एक्ट, 1919 के खलिाफ हो रहे शांतपूरण वरिध प्रदर्शन के दौरान नरसंहार हुआ, जिससे सैकड़ों नरिदोष प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई।
    - हालीकडायर ने 13 अप्रैल (बैसाखी के दिन) को एक घोषणा की, जिसमें लोगों को प्रदर्शन करने से मना किया गया।
- **हंटर आयोग:** हंटर आयोग को जलियाँवाला बाग नरसंहार की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था।
  - इस आयोग की रपौर्ट में नरिदोष और नशिस्त्र नागरिकों पर गोली चलाने के डायर के नरिणय की आलोचना की गई तथा सैन्य बल के असंगत उपयोग पर प्रकाश डाला गया।
  - हंटर आयोग के नषिकर्षों से भारत में डायर के कार्यों की नदिा को बढ़ावा मिला।
    - समिति की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिये एक क्षतपूरति अधिनियम पार्लि किया था।

- आयोग की रपिर्ट के कारण **डायर को उसकी कमान से हटा दिया गया** और उसके बाद सेना से उसकी सेवानवृत्ति कर दी गई।
- **परगाम और महत्त्व:** जलियाँवाला बाग नरसंहार भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण क्षण बन गया, जिसने **महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन (1920-22) को उत्प्रेरित किया।**
  - इस घटना के वरिध में **रवीन्द्रनाथ टैगोर** ने अपनी **नाइटहुड** की उपाधत्याग दी।
  - 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी **उधम सहि** ने **माइकल ओ 'डायर की हत्या** कर दी, जिन्होंने डायर के कार्यों को मंजूरी दी थी।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? (2009)

- इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया
- इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा को दबा दिया
- इसने सरकार को बनिा मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिये अधिकृत किया
- इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगाया

उत्तर: (c)

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/racial-bias-in-jallianwala-bagh-massacre-compensation>

